REGISTERED OFFICE:

BHIKAIJI CAMA PLACE, M.G. MARG,

NEW DELHI - 110066 TELEPHONE : 26791234

FAX: 26791033

CIN: L55101DL1980PLC011037
Website: www.asianhotelsnorth.com
E-mail: investorrelations@ahlnorth.com



ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

AHNL/CS/1013/2025 September 08, 2025

Corporate Services Department BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400 001

Scrip Code/Scrip ID: 500023/ASIANHOTNR

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051
Symbol: ASIANHOTNR

Subject: Submission of the copies of Newspaper Advertisement for completion of dispatch of the Notice of 44th Annual General Meeting & Annual Report for FY 2024-25

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisement copies each of Financial Express (English daily) and Jansatta (Hindi daily) both dated September 08, 2025, inter-alia confirming the completion of dispatch of Notice of the 44th Annual General Meeting and Annual Report for the FY 2024-25. The above information is also available on company's website www.asianhotelsnorth.com

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Asjan Hotels (North) Limited

Tarun Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Encl:\ as above







NOTICE

2nd Notice to the Shareholders on Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Force Motors Limited ("the Company")

n continuation to our previous advertisement dated 14th July, 2025 and pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July 2025, all shareholders are hereby once again informed that a Special Window is open for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical

This facility is available for Transfer Deeds lodged prior to April 01, 2019 and which were rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in documents/process/or otherwise.

Investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited at Block No. 202, 2nd Floor, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road, Pune - 411 001.

For Force Motors Limited

Place : Pune Date: 8th Sept 2025

Rohan Sampat Company Secretary & Compliance Officer CIN: U74999HR1985PLC034079

Tel: +91(129) 6621300, Email: gdi.stakeholder@gknautomotive.com NOTICE (PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION TO ALL EQUITY

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY) 100 Days Campaign- "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updation

The shareholders may further note that this campaign has been started proactively and specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, bank mandates, Nominee and contact information etc. and claim their unpaid/unclaimed Dividend in order to prevent

By order of the Board

Place: Faridabad

Richa Porwal Company Secretary FCS-8318

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PRAJ INDUSTRIES LIMITED

CIN: L27101PN1985PLC038031

Regd. Office: "PRAJ TOWER", S.No. 274 & 275/2, Bhumkar Chowk - Hinjewadi Road, Hinjewadi, Pune-411 057. Email: investorsfeedback@praj.net; Website: www.praj.net

Ph. No.: 020 71802000

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 100 DAYS CAMPAIGN -"SAKSHAM NIVESHAK" BY INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

This is to inform you that the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF Authority).

Ministry of Corporate Affairs, vide its circular dated 16th July 2025, have launched a '100 days' campaign - "Saksham Niveshak" effective from 28th July 2025 till 6th November 2025, targeting all shareholders whose dividends have remained unpaid/unclaimed. As per the directives of the IEPF Authority, Praj Industries Limited has initiated a 100 days campaign - "Saksham Niveshak", for all our shareholders whose dividends have remained unpaid/unclaimed. Pursuant to the aforesaid circular, you are requested to update your 'Know Your Customer' (KYC) details such as PAN, Email Address, Contact Number, Address, Bank Details and Nomination etc., in order to ensure timely receipt of the dividends declared by the Company directly to your bank accounts and preventing transfer of such dividends and shares to the IEPF.

You may reach out with the requisite documents or any queries related to the updation of KYC or claim of unclaimed dividend to MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent (RTA), within the aforesaid stipulated period, at the details given below:

MUFG Intime India Private Limited

(formerly known as Link Intime India Private Limited)

Registrar and Share Transfer Agent (RTA)

Unit: PRAJ INDUSTRIES LIMITED

Address: Akshay Complex, Block No. 202, 2nd Floor, Off. Dhole Patil Road, Near Ganesh Temple, Pune 411001

Email: pune@in.mpms.mufg.com Tel.: 020-26161629/26160084 Further, the shareholder may also mark a copy to the designated email ID at investorsfeedback@prai.net.

Shareholders holding shares in demat mode may approach their respective Depository Participants (DP) for updating the KYC.

For PRAJ INDUSTRIES LIMITED

Place: Pune Date: 08.09.2025

Sd/-**ANANT BAVARE COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER** (M. No.: 21405)



ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037 Registered Office: Bhikaji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi - 110066 Phone: 011 66771225/1226; Fax: 011 26791033

E-mail: investorrelations@ahlnorth.com: Website: www.asianhotelsnorth.com

NOTICE OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE & INTIMATION REGARDING CUT-OFF DATE** AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS ETC.

NOTICE is hereby given that: The 44th Annual General Meeting (AGM) of ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED (Company) will be

- held on Monday, the September 29, 2025 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business(es) as delineated in the Notice of the 44th AGM in pursuance of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), relevant Secretarial Standards and directions outlined by the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 ("hereinafter referred collectively as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 03, 2024 have permitted companies to conduct AGM through VC or OAVM, subject to compliance of various conditions mentioned therein. The deemed venue of the 44th AGM shall be the Registered Office of the Company at Bhikaji Cama Place, M. G. Marg,
- Company whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility by using their e-voting login credentials given in the e-mail forwarding Notice of the AGM and Annual Report. The weblink to attend the AGM is https://emeetings.kfintech.com. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Act. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e.

Notice of the AGM alongwith Annual Report 2024-25 for the financial year ended on March 31,

2025, have been sent on September 06, 2025, through electronic mode to all the Members of the

- Monday, September 22, 2025, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business(es), as set out in the Notice of the 44th AGM through electronic voting system ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFin Technologies Ltd. ("RTA") as the authorized Agency to provide remote e-voting facility. All the members are informed that:
- the Ordinary and Special Business(es) as set out in the Notice of the 44th AGM will be transacted through electronic means;
- the remote e-voting shall commence on Friday, September 26, 2025, at 9.00 a.m. (IST); the remote e-voting shall end on Sunday, September 28, 2025, at 5.00 p.m. (IST);
- the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting system during the 44th AGM is Monday, September 22, 2025;
- members whose e-mail addresses are not registered/updated with the Company/RTA/ Depository Participant(s) and any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the 44th AGM and is holding shares as on cut-off date i.e. Monday, September 22, 2025 may obtain the User ID and initial password by following the instructions given below:
- (a) Members holding shares in physical mode are requested to notify change, if any, in their e-mail address, mailing address including pin code, bank details, residential status etc. to the Company or RTA in prescribed Form ISR -1 and other forms pursuant to SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated June 23, 2025 (as amended), as per instructions mentioned in the form. The said form can be downloaded from the company's website at https://www.asianhotelsnorth.com/Downloads.html and is also available on the website of the RTA at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx.
- (b) Members holding shares in dematerialised mode who have not registered their e-mail addresses with their Depository Participant(s) are requested to register /update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts. (c) After due verification, the Company / RTA will forward your login credentials to your registered
- (d) Follow the instructions given at Note no. 15 of the Notice of 44th AGM to cast your vote.
- (e) You can also update your mobile number and e-mail address in the user profile details of the folio which may be used for sending further communication(s)
- Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by RTA after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) members who could not cast their vote through remote e-voting, shall be provided the opportunity to vote electronically
- during the 44th AGM; c) members may participate in the 44th AGM through VC/OAVM even. after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the 44th AGM, and; d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the 44" AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 44th AGM, the Notice of the 44th AGM clearly lays out the detailed procedure for remote e-voting, attending the AGM through VC/ OAVM and electronic voting at the AGM; vii. Notice of the AGM along with Annual Report 2024-25 have been uploaded on the Company's
- website www.asianhotelsnorth.com and may be viewed at/downloaded from it's Notice Board or 'Annual Report' section under the main page 'Reports' and are available on the websites of the Stock Exchanges i.e, BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India (www.nseindia.com) and also on the website of Company's RTA at https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx viii. In case the Members have any query on the above matters, the Members may visit Help &
- FAQs section of RTA's website i.e. https://evoting.kfintech.com or contact the RTA at their office at Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana through Telephone No.: 1800 309 4001 (toll-free) or e-mail id: evoting@kfintech.com or einward.ris@kfintech.com or contact RTA's official, Mr. D Suresh Babu, Senior Manager at suresh.d@kfintech.com, Members may also contact the Company at 011-66771225 and at email id: investorrelations@ahlnorth.com.
- The Board of Directors of the Company, at its meeting held on September 03, 2025, has appointed Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner (Membership No. ACS 16302), failing him Mr. Shashikant Tiwari, Partner (Membership No. FCS 11919), failing him Mr. Lakhan Gupta, Partner (Membership No. FCS 12682) of M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the electronic voting at the AGM (Insta Poll) in a fair and transparent manner. The result of the voting shall be declared within the prescribed time and the same shall be notified to the Stock Exchanges and shall be uploaded on the website
- Pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 (the Act) read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 23, 2025 to Monday, September 29, 2025, (inclusive of both days), for the purpose of the AGM.

For and on behalf of Asian Hotels (North) Limited

Membership No. ACS -53209

Sd/-Tarun Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

GKN DRIVELINE (INDIA) LIMITED Regd. Office: Plot No. 270, Sector-24, Faridabad, Haryana-121005

and shareholder engagement to prevent transfer of Unpaid / Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Notice is hereby given to the Shareholders of GKN Driveline (India) Limited ("your Company" that pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate affairs ("MCA") letter dated July 16, 2025 your Company has started a 100 days campaign "Saksham Niveshak" starting from July 28, 2025 to November 6, 2025. During this Campaign all the shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & nomination details or face any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Companies Registrar and Transfer Agent ("RTA") i.e. MCS Share Transfer Agent Limited, Address - 179-180, 3rd Floor, DSIDC Shed, Okhla Industria Area, Phase I, New Delhi - 110020 Ph; +91 11 41406149, 50, 51 or e-mail @ helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or may write to Company at Company's email @ gdi.stakeholder@gknautomotive.com

their shares and dividend amount from being transferred to the IEPFA.

For GKN Driveline (India) Limited

Date: 8th September 2025

Sd/-

INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES (AS DEFINED IN THE DRHP) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS

PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN



Please scan this QR code to view the DRHP)



SHIVALAYA CONSTRUCTION LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Shivalaya Construction Co. Private Limited' at Delhi, India as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated December 10, 1997, issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana. Thereafter, pursuant to a board resolution September 24, 2024 and shareholders' resolution dated September 27, 2024, the name of our Company was changed to 'Shivalaya Construction Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated December 20, 2024 was issued by Registrar of Companies, Central Processing Centre. Further, pursuant to resolutions by our board of directors and shareholders, each dated June 10, 2025, our Company was converted into a public limited company and the name our Company was changed to 'Shivalaya Construction Limited', and a fresh certificate of incorporation dated June 30, 2025 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For details in relation to the changes in the name and registered office of our Company, see "History" and Certain Corporate Matters - Changes in our registered office" on page 251 of the draft red herring prospectus dated September 5, 2025 (the "DRHP" or the "Draft Red Herring Prospectus"). Corporate Identity Number: U45201DL1997PLC091051

Registered and Corporate Office: Plot No. 137, Second Floor, Avtar Enclave, Paschim Vihar, North-West, New Delhi 110 063, Delhi, India. Contact Person: Vijay Gupta, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: +91 011 4508 8679 | E-mail: compliance@sccgroup.co.in | Website: www.sccgroup.co.in

OUR PROMOTERS: SHRIPAL AGGARWAL, PRADEEP NANDAL, SUMITRA NANDAL, SAHIL AGGARWAL AND SUMIT NANDAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH ("EQUITY SHARES") OF SHIVALAYA CONSTRUCTION LIMITIED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹2 EACH (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹4,500.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 24,861,900 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION COMPRISING UP TO 11,613,645 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY SHRIPAL AGGARWAL, UP TO 5,765,475 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY PRADEEP NANDAL, UP TO 6,215,475 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY SUMITRA NANDAL ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND UP TO 817,305 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY S P AGGARWAL 8 SONS (HUF) AND UP TO 450,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹[◆] MILLION BY PARDEEP NANDAL (HUF) (THE "PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS" AND TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFER BY THE SELLING SHAREHOLDERS. THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), MAY CONSIDER AN ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES, AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, TO ANY PERSON(S), AGGREGATING UP TO ₹900.00 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR, THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER, OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND PROSPECTUS. OUR COMPANY SHALL REPORT ANY PRE-IPO PLACEMENT TO THE STOCK EXCHANGES, WITHIN 24 HOURS OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT (IN PART OR IN ENTIRETY).

SHARE CAPITAL, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [•] % AND [•] %, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY OFFER A DISCOUNT OF ₹[•] ON THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹2 EACH AND THE OFFER PRICE IS [+] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [◆] EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹2 EACH, AGGREGATING UP TO ₹(◆) MILLION (CONSTITUTING UP TO [◆]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [*] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [.] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days.

In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, may extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges. by issuing a public notice and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and Sponsor Banks, as applicable. The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, as amended, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Category"), provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion") of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Category"). Further, 5% of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Category, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion (defined hereinafter) will be added to the remaining QIB Category for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors ("NIIs") ("Non-Institutional Category"), of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹1,000,000 and under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("Rils") ("Retail Category"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID in case of UPI Bidders (defined hereinafter)) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Banks, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate

in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 433 of the DRHP. This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated September 5, 2025 with SEBI and the Stock Exchanges on September 6, 2025.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of publication of this public announcement by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com where the equity shares are proposed to be listed, the websites of the BRLMs, i.e. IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited) at www.iiflcap.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, JM Financia Limited at www.jmfl.com and the website of our Company at www.sccgroup.co.in. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of publication of this public announcement in accordance with Regulation 26(2) of SEBI ICDR Regulations.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk"

Factors" on page 41 of the DRHP. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("Red Herring Prospectus") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such

Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges.

For details of the main objects of the Company as contained in its memorandum of association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 251 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the memorandum of association and the number of shares

IIFL CAPITAL

subscribed by them see "Capital Structure" on page 110 of the DRHP.

IIFL Capital Services Limited (formerly known as IFL Securities Limited) 24th Floor, One Lodha Place Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4646 4728 E-mail: shivalaya.ipo@iflcap.com Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com Contact person: Nishita Mody/ Pawan Kumar Jain

SEBI registration number: INM000010940

Website: www.iificap.com

Place: New Delhi

Date: September 6, 2025

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AXIS CAPITAL

Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4325 2183 E-mail: shivalaya.ipo@axiscap.in Investor grievance e-mail: complaints@axiscap.in

Website: www.axiscapital.co.in

Contact person: Simran Gadh/ Pratik Pednekar

SEBI registration number: INM000012029

JM FINANCIAL

grievance.ibd@jmfl.com

Website: www.jmfl.com

Contact person: Prachee Dhuri

SEBI registration number: INM000010361

JM Financial Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) 7th Floor, Cnergy, Appasaheb C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6630 3030 E-mail: shivalaya.ipo@jmfl.com Investor grievance e-mail:

MUFG Intime India Private limited

REGISTRAR TO THE OFFER

Mumbai 400 083, Maharashtra, India Telephone: +91 810 811 4949 E-mail: shivalayaconstruction.ipo@in.mpms.mufg.com Investor grievance e-mail: shivalayaconstruction.jpo@in.mpms.mufg.com Contact person: Shanti Gopalkrishnan Website: https://in.mpms.mufg.com/ SEBI registration number: INR00000405

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Vijay Gupta, SHIVALAYA CONSTRUCTION LIMITED

Plot No. 137, Second Floor, Avtar Enclave, Paschim Vihar, North-West, New Delhi 110 063 Delhi, India. Tel: +91 011 4508 8679; E-mail: compliance@sccgroup.co.in; Website: www.sccgroup.co.in

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For SHIVALAYA CONSTRUCTION LIMITED On behalf of the Board of Directors

Vijay Gupta Company Secretary and Compliance Officer

SHIVALAYA CONSTRUCTION LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 5, 2025 with SEBI and the Stock Exchanges on September 6, 2025. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, on the websites of the BRLMs, i.e. IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited) at www.irflcap.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, JM Financial Limited at www.jmfl.com and on the website of our Company at www.sccgroup.co.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" on page 41 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including India. The Equity Shares offered in the Offer have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") and shall not be offered or sold within the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in. and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

epaper.financialexpress.com

Place: New Delhi

Date: September 06, 2025

of the Company as well as that of RTA.

New Delhi

WORLDWIDE ALUMINIUM LTD.

(Formerly known as Worldwide Leather Exports Ltd.) Reg. Office: 602, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi-110001. Email Id: legalteam.worldwide@gmail.com Ph. No.: +91-11-49446667/49446668 CIN: L70109DL1990PLC338798 Website: www.wwal.in

NOTICE OF 35" ANNUAL GENERAL MEETING,

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 35" Annual General Meeting (AGM) of the WORLDWIDE ALUMINIUM LIMITED (the Company) will be held on Tuesday, 30" September, 2025 at 11:00 A.M. THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIOVISUAL MEANS ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM, Annual Report and Attendance Slip for 2025 has been sent in electronic modes to Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants(s). The Notice of the AGM, Annual Report and Attendance Slip 2025 is also available on the website of the Company, at www.wwal.in.

The Company is pleased to provide to its members with the facility to exercise their vote by electronic means (e-voting) on the businesses as set out in the Notice of the AGM: Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23" September 2025, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than venue of the AGM. A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial owners maintained by Depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at

The remote e-voting period will commence on Saturday, September 27, 2025, at 10.00 a.m. and will end on Monday, September 29, 2025, at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5.00 p.m. on Monday, 29" September 2025. Once the

vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently: The voting facility shall also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote by e-voting shall be eligible to vote at the AGM. Members who have cast their vote through e-voting, may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23" September 2025, may obtain the USER ID and Password by sending a request at https://www.evoting.nsdl.com_However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

The Notice of AGM is available on the Company's website www.wwal.in and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain

closed from Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM By The Order Of Board Worldwide Aluminium Ltd.

Joint Managing Director Date: 07.09.2025

Place: New Delhi

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

Sd/-

DATE: 03.09.2025

PLACE: NEW DELHI

Abhishek Jain

(DIN: 02801441)

सीआईएनः L55101DL1980PLC011037 पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066 फोन: 011 66771225/1226; फैक्स: 011 26791033 ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com; वेबसाइटः www.asianhotelsnorth.com

44वीं वार्षिक आम बैठक व पुस्तक बंदी की सूचना तथा कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग इत्यादि से सम्बंधित प्रज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि

- एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड (कम्पनी) की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 को पूर्वाहन 11.30 बजे (आईएसटी), एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भीतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, 44वीं एजीएम की सूचना में निरूपित व्यवसायों के सम्पादन हेतू, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम), संबंधित सेक्रेटेरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई. 2020 क्रमशः तथा इस संबंध में इसके पश्चात् जारी किए गए परिपत्रों, नवीनतम 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 (इसके पश्चात् सामृहिक तौर पर "एमसीए परिपन्नों" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("संबी") ने अपने सर्कुलर संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 के हवाले से इसमें उहिलखित विभिन्न शतों के विषय-स्वरुप, कम्पनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है, आयोजित की जाएगी। 44वीं एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी, मार्ग, नई दिल्ली - 110066
- कम्पनी ने एजीएन की सूचना सहित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वितीय वर्ष हेत् वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का प्रेषण 6 सितम्बर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया है, जिनके ईमेल पते कम्पनी/ आरटीए/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ऑ) के साथ पंजीकृत है। सदस्य एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के ई-मेल अग्रेषण में दिए गए अपने ई-वीटिंग लॉगिन केंडेंशियल का उपयोग करके वीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। एजीएम में भाग लेने हेत् वेबलिंक https://emeetings.kfintech.com है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम हेत् संगणित किया जाएगा।
- कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 22 सितम्बर, 2025 के अनुसार, भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज़ड़ तौर पैर शेयर रखने वाले सदस्य, ४४वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('आरटीए') की सेवाए ली है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - i. 44वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपादित किया
 - रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2025 को पूर्वाह 9:00 बजे (आईएसटी) आरम्म होगी;
 - iii. रिनोट ई-वोटिंग रविवार, 28 सितम्बर, 2025 को अपराह 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी,
 - iv. रिमोट ई-वोटिंग या 44वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने हेत् कट-ऑफ़ तिथि सोमवार, 22 सितम्बर, 2025 है;
 - v. ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी सहभागी(ऑ) के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं तथा कोई भी व्यक्ति जो शेयरों का अधिग्रहण ४४वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 22 सितम्बर, 2025 को उसके शेयर प्रतिरक्षित करता है, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:
 - (अ) भौतिक मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, पिन कोड, बैंक विवरण, आवासीय रिथति इत्यादि सहित मेलिंग पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, को कम्पनी के आरटीए की निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 एवं सेबी मास्टर परिपत्र SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 दिनांकित 23 जुन, 2025 (यथा संशोधित) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अन्य फॉर्म में सुचित करें। उक्त फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट https://www.asianhotelsnorth.com/Downloads.html से डाउनलोड किए जा सकते हैं और यह आरटीए की वेबसाइट <u>https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx</u> पर भी उपलब्ध हैं।
 - (आ) डिमैटेरियलाइण्ड मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओ) कें साथ पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं), जिनकें साथ वे अपना डीमैट खाता प्रतिरक्षित रखते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण / अद्यतन कराएं।
 - (इ) उचित सत्यापन के पश्चात, कम्पनी / आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्नेषित करेंगे।
- (ई) अपना वोट डालने के लिए 44वीं एजीएम की सचना के नोट संख्या 15 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- (उ) आप फोलियों के युजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।
- vi. सदस्य ध्यान दें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग मॉडवल मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के उपरान्त आरटीए हारा अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ख) वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके हों, उन्हें 44वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा; ग) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट खालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 44वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें 44वीं एजीएम में पूनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; एवं: घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, मात्र वही रिमोट ई--वोटिंग की सुविधा का लाभ जठाने, 44वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से माग लेनें एवं 44वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु अधिकृत होगा। 44वीं एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिमोट ई-वोटिंग, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताती है;
- vii. एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelsnorth.com पर अपलोड कर दी गई हैं तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पुष्ठ पर "वार्षिक रिपोर्ट" अनुमाग पर देखा / डाउनलोड किया जा सकता है, तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटॉ, अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (<u>www.nseindia.com</u>) पर उपलब्ध हैं एवं कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट, (आरटीए) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx पर भी उपलब्ध है।
- viii. यदि सदस्य उपरोक्त मामलों में कोई प्रश्न रखते हैं, तो सदस्य आरटीए की वेबसाइट अर्थात https://evoting.kfintech. com के हेल्प एवं 'एफएक्यू' अनुभाग पर जा सकते हैं या आस्टीए से चनके कार्यालय सेलेनियम बिलिंडग, टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना में टेलीफोन नंबर 1800–309–4001 (टोल फ्री) पर अथवा ई-मेल आईडी evoting@kfintech.com या einward.ris@kfintech. com पर या आरटीए के अधिकारी, श्री डी सुरेश बाबु, वरिष्ठ प्रबंधक, से suresh.d@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी से भी 011–66771225 एवं ईमेल आईडी: investorrelations@ahlnorth.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- 4. कम्पनी के निदेशक मंडल ने 3 सितम्बर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, भागीवार (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919), उनके विफल होने पर श्री लखन गुप्ता, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 12682) मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इन्स्टा पॉल) के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजन हेत् संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। मतदान का परिणाम निर्धारित समय के अन्दर घोषित किया जाएगा, और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सुचित किया जाएगा तथा कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 10(1) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण पुस्तकें मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025 से सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड हस्ता/-तरुण श्रीवास्तव

कृते एवं की ओर से

क्षेत्रीय निदेशक (केंद्र सरकार) के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, एमसीए बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के उप–धारा (4) और कंपनी (स्थापना) नियम, 2014 के नियम 30 उप-नियम (5) के खंड (1) के संबंध में

रयरटेक कुलिंग प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सीआईएन: U29191DL2008PTC174792 जिसक गंजीकृत कार्यालय है: बी−93, फेज−।।, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली−110028

फॉर्म नंबर आईएनसी-26

[कंपनियां (स्थापना) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

जनता को यह सचित किया जाता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत माननीय क्षेत्रीय निदेश . उत्तरी क्षेत्र बी—2 विंग दसरी मंजिल पं दीनदयाल अंत्योदय भवन सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स नर्ड दिल्ली—110003 आवेदन करने जा रही है। यह आवेदन 18 अगस्त, 2025 को हुई असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि के लिए है, ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्याल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित कर सके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रस्तावित बदलाव से जिसका भी हित प्रभावित हो सकता है, वह एमसीए—21 पो 'www.mca.gov.in) पर इन्वेस्टर कंप्लेंट फॉर्म भरकर या रजिस्टर्ड डाक से अपना आपत्तियां भेज सकता है। आपत्ति . । एक एफिडेविट होना चाहिए जिसमें उसके हित का प्रकार और विरोध के कारण बताए हों। यह आपत्तियां मान क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र बी—2 विंग दसरी मंजिल पं दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स देल्ली—110003 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। इसकी प प्रति नीचे दिए पते पर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी भेजी जार्न पंजीकृत ऑफिस :बी–93, फेज–11, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110028

एयरटेक कूलिंग प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सं (ललित कुमार डीन : 01671088

पताः 254 / 31, ग्रीन बेल्ट के पास, अमर नगर, सेक्टर-31,

फरीदाबाद, हरियाणा-121003

तारीखः 07.09.2025

स्थानः नई दिल्ली

RAI BAHADUR NARAIN SINGH SUGAR MILLS LTD.

CIN:U74899DL1932PLC000298

Regd. Office: 2, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Head Office: B-40, Second Floor, B-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 Tel.: 011-41513656, 58 E-mail: rbns@rbnssugar.in rbnsmail@rbnssugar.in

NOTICE TO THE MEMBERS FOR ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the ANNUAL GENERAL MEETING of the Company will be held on Monday, 29th day of September, 2025 at 11:30 AM through Video conferencing (VC) mode as permitted by Ministry of Corporate Affairs to transact the business as stated in

the notice of the meeting. In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, Company has completed the dispatch of the Notice of the AGM, Director's Report and Annual Report for the Financial Year 2024-25 to all members as per permitted mode i.e. by email at their registered email ID's with the Company.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 26th September, 2025 to Monday, 29th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Dividend, if approved by the members at the Annual General Meeting of the Company.

Members are requested to update their Email Address/PAN details with the Company. For & on behalf of the Board of Directors

Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Ltd.

Nidhi Arora Company Secretary

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, advertising in its newspapers recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any

सनटेक इंफ्रा सॉल्युरांस लिभिटेड 🙀 में सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सीआईएनः U42900DL2009PLC189765 **पंजीकृत कार्यालयः** यूनिट नं. 604–605–606, 6जी फ्लोर, एनडीएम–2, प्लॉट नं. व–1,2,3, नेताजी सुभाष प्लेस, पिसांपुरा, आनंदवास शाकुरपुर, दिल्ली-110034 फोन नंबर: +91-11-47057766/40 **ई-मेल आईडी:** info@suntechinfra.com वेबसाइटः http://suntechinfra.com

यह सूचित किया जाता है कि सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") अन्य ऑडियो–विजअल माध्यम ("OAVM") के माध्यम से दोपहर 1:00 बजे आयोजित क जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों (''अधिनियम'') और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") लिस्टिंग दायित्व और खलासा आवश्यकता नियम. 201: "लिस्टिंग नियम") के सभी लागू प्रावधानों के अनुसार होगी। साथ ही, 19 सितंबर, 2024 की गरीख वाले सामान्य सर्कुलर संख्या 09/2024, 08 अप्रैल, 2020 की तारीख वाले 14/2020, 13 भप्रैल, 2020 की तारीख वाले सामान्य सर्कुलर संख्या 17/2020, 05 मई, 2020 की तारीख वार नामान्य सर्कुलर संख्या 20/2020 और 05 मई, 2022 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालर "एमसीए") और सेबी द्वारा जारी अन्य लागू सर्कुलर ("संबंधित सर्कुलर") का भी पालन किय जाएगा। यह बैठक 1 सितंबर, 2025 की तारीख वाले AGM बुलाने वाले नोटिस में बताए गए यवसाय को पूरा करने के लिए होगी। VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के लिए माने जाएंगे। संबंधित सर्कुलर के अनुसार 2024—25 वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम का नोटिस और वित्तीय विवरण, साथ ही बोर्ड की रिपोर्ट ऑडिटर की रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज, कंपनी के सभी सदस्यों को भेजे गए हैं, जिनक ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रजिस्टर्ड है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट nttps://suntechinfra.com/page_id¾4233 पर, स्टॉक एक्सचेंज (NSE लिमिटेड) व वेबसाइट www.nseindia.com पर और NSDL (रिमोट ई—वोटिंग सुविधा देने वाली एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे। चुंकि यह एजीएम संबंधित सर्कुलर के अनुसार VC/OAVM के माध्यम से हो रही है, इसलिए

सदस्यों के लिए इस एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए किसी को प्रोक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ईमेल एड्रेस रजिस्टर/अपडेट करने का तरीकाः

डिजिट बेनिफिशियरी ID), शेयरहोल्डर का नाम, क्लाइंट मास्टर या कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी, पैन (पैन कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड स्कैन कॉपी) compliance@suntechinfra.com पर भेजें। कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 08 और समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और त्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और लिस्टिंग नियमों के नियम 44 और संबंधित सर्कलर व नुसार, सदस्यों को एजीएम के नोटिस में दिया, सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ('रिमोट चोटिंब') वोट डालने की सुविधा दी जाती है। एजीएम के दिन ई—वोटिग नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)]ारा उपलब्ध कराई जाती है और इस ई–वोटिंग के माध्यम रे नामकाज किया जा सकता है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

कंपनी ने ई-बोटिंग के लिए सदस्यों की योग्यता तय करने के लिए 22 सितंबर, 2025 क "कट-ऑफ" तारीख तय की है। जो कोई भी व्यक्ति नोटिस भेजने के बाद शेयर खरीदकर कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ डेट पर शेयर रखता है, वह folio No/DP II और Client ID लिखकर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर प्व और पासवड प्राप्त कर सकता है। अगर सदस्य पहले से छैक्स में ई-वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो डालने के लिए मौजूदा यूजर प्व और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

– रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को सुबह 09:00 बजे (प्ज) शुरू होगी और रविवार 28 सितंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे (IST) समाप्त होगी (दोनों दिन शामिल हैं)। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे सकते हैं। इसके बाद, NSDL द्वार रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जायेगा।

- सदस्यों के वोटिग अधिकार सोमवार 22 सितंबर, 2025 ('कट—ऑफ तारीख') को कंपनी र्क पेड-अप इक्विटी कैपिटल में उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगी कट-ऑफ डेट पर कंपनी का सदस्य कोई भी व्यक्ति रिमोट ई-वोटिग का उपयोग करके य एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देकर, एजीएम के नोटिस में दिये , सर्भ प्रस्तावों पर वोट देने का हकदार होगा।

जो सदस्य पहले से रिमोट ई-वोटिंग से वोट नहीं दे पा, हैं, वे एजीएम में वोट देने क अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकेंगे। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से वोट दे चुके हैं, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट नहीं

कंपनी ने ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच व लिए डी.आर. एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी के पार्टनर श्री दीपक गुप्ता (सी.पी. नंबर 4629) के स्क्रटिनाइजर नियक्त किया है।

ोसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने, एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग और –वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य एजीएम के नोटिस को देख सकते हैं डीमैट और फिजिकल दोनों तरह के शेयरहोल्डर्स और जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर नर्ह किया है, उनके लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग का तरीका कंपनी की वेबसाइट https://suntechinfra.com/?page id¾4233, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट vww.nseindia.com और एनएसडीएल (रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध एजीएम नोटिस में दिया गया है। ई—वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सवाल या शिकायत के लिए, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800—222—990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज मेल्स कॉम्प्लेक्स, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई—400 013 की सीनियर मैनेजर, सुर्श्र गल्लवी म्हात्रे से संपर्क कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in oallavid@nsdl.co.in है और टेलीफोन नंबर +91 22 24994545, +91 22 24994890 हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से संबंधित शिकायतों का भी समाधान करेंगी।

सनटेक इंफ्रा सॉल्युशंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर र गौरव गुप्त

मैनेजिंग डायरेक्टर

बाजेल इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएनः L65923DL1982PLC290287 पंजीकृत कार्यालयः । ⊢बी / 20, पहली मंजिल, लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024 फोन नंबर: 011-46081516, ईमेल: bazelinternational@gmail.com,

वेबसाइटः www.bazelinternationalltd.com

42वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस. ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि बेजेल इंटरनेशनल लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ।।–बी/20, प्रथम तल, लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024 में आयोजित की जाएगी। एजीएम के नोटिस में उल्लिखित कार्यसूची के अनुसार बैठक में कामकाज किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड-2 और सेबी (एलओडीआर) नियम, 2015 के नियम 44 का पालन करते हुए, कंपनी अपने सदस्यों को NSDL द्वारा दी जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से प्रस्तावों पर वोट करने की सुविधा प्रदान कर रही

- 1. FY 2024-25 के लिए एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 6 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी / आरटीए के साथ रजिस्टर्ड है।
- 2. रिमोट ई-वोटिंग की कट-ऑफ तारीखः 22 सितंबर, 2025
- 3. रिमोट ई-वोटिंग 26 सितंबर, 2025 (शुक्रवार) सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 28 सितंबर, 2025 (रविवार) शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
- 4. सदस्य रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में बैलेट के माध्यम से वोट दे सकते हैं। जो सदस्य पहले ही रिमोट ई-वोटिंग से वोट दे चुके हैं, वे AGM में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
- 5. एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी **(www.bazelinternation**alltd.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- 6. जो सदस्य नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट-ऑफ डेट से पहले शेयरहोल्डर बनते हैं, वे NSDL/RTA से लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं।
- 7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी भी सवाल या शिकायत के लिए, सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई-वोटिंग मैन्अल देख सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं:
- अ) श्री परवीन शर्मा, D–153ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–।, नई दिल्ली-110020, ईमेलः parveen@skylinerta.com, फोनः
- इ) श्री पंकज दावर (मैनेजिंग डायरेक्टर), बाजेल इंटरनेशनल लिमिटेड, 11-बी / 20, पहली मंजिल, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024; ईमेलः bazelinternational@gmail.com, फोनः 011-46081516

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 91 और सेबी (एलओडीआर) के नियम 42 के अनुसार, कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 23 सितंबर 2025 (मंगलवार) से 29 सितंबर 2025 (सोमवार) तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम के लिए बंद रहेगा।

> बेजेल इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए पंकज दावर (मैनेजिंग डायरेक्टर)

लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024

(पंजीकृत कार्यालयः । ⊢बी / 20, पहली मंजिल,

डीन: 06479649

दिनांकः 07.09.2025 **स्थानः** नई दिल्ली

जिदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

ईमेल आईडी: cs_jpoly@jindalgroup.com; वेबसाइट: www.jindalpoly.com फोन: 0124-6925100

एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 01:00 बजे होटल नटराज, काला आम दिल्ली रोड: सिविल लाइन्स, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203001 में, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों ("अधिनियम") के अनुपालन में 51वीं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसायों का संघालन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

विनियमों के विनियम 38 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम के नोटिस 08 सितंबर. 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोंड के माध्यम से उन सदस्यों को ई—मेल द्वारा भेजे जा रहे हैं, जिनके ईमेल आईबी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपने इमेल पंजीकत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम के नोटिस देखने के लिए एक पत्र प्रदान किया गया जिसमें सटीक पथ जानने के लिए एक वेब-लिंक प्रदान किया

https://www.jindalpoly.com/download-reports, स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाइट यानी, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरघारिता के संबंध में डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी वे पास अपना ईमेल पता पंजीकृत करवा लें और भौतिक रूप में शेयरधारिता के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") सेलेनियम टॉवर बी प्लॉट नंबर ३१ और ३२ वित्तीय ज़िला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद तेलंगाना-500032 को लिखकर पंजीकृत करवा लें।

भौतिक या डीमैट रूप में शेयरधारक सदस्य, एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट संकल्प(पाँ) के संबंध में

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान बैलेट / मतपन्न के माध्यम से कथित कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार 23 सितंबर, 2025 को अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, 27 सितंबर 2025 (प्रात: 09:00 बजे) से शुरू होकर सोमवार, 29

हारा इसे तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, तो उसे बाद में अपने वोट को संशोधित करने की अनुगति नहीं दी जाएगी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अपना बोट ढालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन एजीएम के दौरान दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

ढाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं. वे एजीएम के दौरान बैलेट / मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा का लाग उठाने के हकदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति एजीएम का नोटिस भेजने के बाद लेकिन ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि यानी

नोटिस के निर्देश भाग में दिए गए तरीके से अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड इस नोटिस और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य और वैधानिक

इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित दस्तावेजों के लिए cs jpoly@jindalgroup.com पर इंमेल भेज दें। किसी भी प्रश्न और ∕या सहायता की आवश्यकता होने पर, सदस्य

https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग में चपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) का संदर्भ ले सकते हैं या ईमेल आईडी evoting@kfintech.com पर केफिन के साथ संपर्क कर सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण / तकनीकी सहायता के लिए केफिन के टोल-फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल कर सकते हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करवा लें। कंपनी का आईएसआईएन INE197D01010 है।

और उनके अनुपरिधत रहने की रिधति में श्रीमती गोनिका कोहली (एफसीएस 5480), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सीपी संख्या 4936) को. जो दोनों मैसर्स डीएमके एसोसिएटस कंपनी सेक्रेटरीज. नई दिल्ली के भागीदार हैं, कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटिंग प्रक्रिया रांचालित करने के लिए संवीक्षक नियक्त किया गया है।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहीखाते आगामी वार्षिक आम बैठक के संबंध में कट-ऑफ तिथि बुधवार, 24 सिलंबर 2025 से मंगलवार, 30 सिलंबर 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभाश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का पता लगाने के उद्देश्य से कट—ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर 2025 को

> निदेशक मंडल के आदेश द्वारा जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड हस्ता / -

अशोक यादव कंपनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम

एसीएसः 14223

[सीआईएनः L17111UP1974PLC003979] पंजीकृत कार्यालायः 18 के. एम. हागुरु—चुलन्दशहर लेड, पी. ओ. मुलावती, जिला बुलन्दशहर (व.प्र.) 245408 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 87, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001

ईमेलः cs_jpoly@jindalgroup.com, वेक्साइटः www.jindalpoly.com 51वीं वार्षिक आम बैठक.

खाता बंदी एवं ई-वोटिंग जानकारी का नोटिस

एतबहारा नोटिस दिया जाता है कि **जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड** की 51वीं वार्षिक आम बैठक अधिनियम की धारा 101 और 136 के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों, सेबी सुधीबद्धत

सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम के नोटिस कंपनी की वेबसाइट

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक–2 के अनुसार, कंपनी अपने शेयरघारकों को नोटिस में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर एजीएम के स्थल पर रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही हैं, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया नोटिस के निर्देश भाग में प्रदान की गई है।

सितंबर 2025 (सांय 05:00 बजे) तक जारी रहेगी और कथित अवधि की समाप्ति के बाद केफिन वे सदस्य, जो एखीएम में उपस्थित हैं तथा जिन्होंने रिमोट हूँ—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं

मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, तो ऐसे सदस्य

रिजस्टर में उल्लिखित सभी दस्तावेज कंपनी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे

कंपनी ने श्री दीपक क्करेज़ा (एफसीएस-4140), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सीपी संख्या 8265)

प्रासंगिक तिथि माना जाएगा, यदि शेयरधारकों द्वारा इसकी रवीकृति दे दी जाती है।

दिनांकः 07 सितंबर 2025

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 6 सितम्बर, 2025 कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या एसीएस - 53209 अगर शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 डिजिट DPID + CLID या 1

associations or individuals

दिनांकः 06.09.2025 manner whatsoever. स्थानः नई दिल्ली THE INDOGULF GROUP

INDOGULF CROPSCIENCES LIMITED

(CIN: L74899DL1993PLC051854) Regd. Office: 501, Gopal Heights, Plot No - D-9, Netaji Subhash Place, New Delhi, India, 110034 Email Id: cs@groupindogulf.com, Website: www.groupindogulf.com, Phone No. +91-11-40040400

NOTICE OF THE 33^{PD} ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 33" Annual General Meeting ("AGM") of Indoguif Cropsciences: Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, September 29, 2025, at 1:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) only. to transact the businesses as mentioned in Notice of the Annual General Meeting which has been sent to the members of the Company. In accordance with the General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021 December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023, October 7, 2023 and October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), the Company has sent the Annual Report 2024-25 along with the Notice of 33rd AGM on September 05, 2025, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent (RTA) or Depository Participants (DPs). Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Company has also sent a letter to shareholders, whose e-mail IDs are not registered with Company/

mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID. The Annual Report 2024-25 along with the Notice of AGM is also available on the Company's website at https://investor.groupindogulf.com/?c=Annual%20Return, on website of BSE Ltd. viz. www.bseindia.com and on website of National Stock Exchange Limited viz. www.nseindia.com and also on NSDL website viz. www.evoting.nsdl.com. In compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder, Listing Regulations and Secretarial Standards, the Company is providing the facility of remote e-voting to the members prior to the AGM and during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM. The Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating e-voting to all

RTA/DPs, providing the weblink of Company's website from where the Annual Report 2024-25 can be accessed. The Company shall

send a physical copy of the Annual Report 2024-25 to those members who specifically request for the same at cs@groupindogulf.com.

The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following: The remote e-voting period shall commence on September 26, 2025 (09:00 A.M.) and end on September 28, 2025 (5:00 P.M.)

The e-voting module for voting shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time. The voting rights of members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Monday. September 22, 2025 ('Cut-off date'). A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners

as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before or during the AGM. The facility of remote e-voting system shall also be made available during the AGM and the members attending the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM electronically but shall not be entitled to vote again on

 d) A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. e) Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquire shares of the Company and become member

of the AGM. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') for e-voting facility. Members who have not yet registered their email addresses may approach their respective DP or write to Registrar and Transfer

of the Company after dispatch of the Notice and hold shares as of the cut-off date may follow the login process detailed in the Notice

Agents of the Company at the below address. Bigshare Services Private Limited

Delhi: 06/09/2025

Place: Delhi

Office No. S6-2, 6th floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre Mahakali Caves Road, Andheri East,

Mumbai – 400093, India; Telephone: +91 22 6263 8200, E-mail: investor@bigshareonline.com Website: https://www.bigshareonline.com/Contact.aspx

Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 by visiting the link: https://www.bigshareonline.com/for_investers.aspx.on.or. before 5.00 p.m. 1ST on Tuesday, September 16, 2025. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL

Alternatively, you may register your email address with RTA on a temporary basis to ensure the receipt of Notice of the AGM and

Helpdesk details Login type Individual Shareholders holding securities in Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by demat mode with NSDL sending a request at evoting@nsdl.com or call at request a contact at toll free no.: 022 - 4886 7000 Individual Shareholders holding securities in Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by demat mode with CDSL sending helpdesk.evoting@cdslindia.com or at request a contact at toll free

no. 1800 21 09911

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 22, 2025 to Sunday, September 28, 2025 (both the days inclusive), for the purpose of 33" AGM to be held on

September 29, 2025. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the 'Downloads section' of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Narendra Dev (Business Development & Products) NSDL at evoting@nsdl.com.

For Indogulf Cropsciences Limited

Sakshi Jain Company Secretary and Compliance Officer

epaper.jansatta.com